



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106 ]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 22, 2002/वैशाख 2, 1924

No. 106]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 22, 2002/VAISAKHA 2, 1924

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2002

निजी नियोजन के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक को "9.40 प्रतिशत  
सरकारी स्टाक, 2012" की बिक्री (पुनर्निर्गम)

सं. 4(9)-डब्ल्यू. एण्ड एम./2002.—भारत सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना (जिसे इसके बाद विशिष्ट अधिसूचना कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या 4(7)/डब्ल्यू. एण्ड एम./99 दिनांक 5 अप्रैल, 1999 द्वारा यथा संशोधित-सामान्य अधिसूचना संख्या 4(2)डब्ल्यू. एण्ड एम./97 दिनांक 1 अप्रैल, 1997 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार 6000 करोड़ रुपए(नामिनल) की कुल राशि के "9.40 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2012" (इसके पश्चात सरकारी स्टाक के रूप में उल्लिखित) की बिक्री अधिसूचित करती है।

निवेश के लिए पात्रता

2. सरकारी स्टाक में सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक (इसके पश्चात बैंक के रूप में उल्लिखित) ही अभिदान करने के लिए पात्र होगा।

निर्गम की विधि

3. (i) सरकारी स्टाक निजी नियोजन के आधार पर केवल भारतीय रिजर्व बैंक को आवंटित किया जाएगा।

(ii) सरकारी स्टाक की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से की जाएगी।

**निर्गम मूल्य**

4. सरकारी स्टॉक 100.00 रुपए (नामिनल) के लिए 114.81 रुपए के मूल्य पर जारी किया जाएगा।

**आवेदन-पत्र**

5. आवेदन-पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 22 अप्रैल, 2002 को उपर्युक्त कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

**निर्गम की तारीख**

6. सरकारी स्टॉक के निर्गम की तारीख 22 अप्रैल, 2002 होगी।

**स्टॉक के लिए भुगतान**

7. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 22 अप्रैल, 2002 को स्टॉक के लिए किए जाने वाले भुगतान में आवेदित स्टॉक के नामिनल मूल्य पर पिछले कूपन भुगतान की तारीख अर्थात् 11 मार्च, 2002 से उद्भूत ब्याज शामिल होगा।

**अवधि**

8. स्टॉक ग्यारह वर्ष की अवधि का होगा जो 11 सितम्बर, 2001 से प्रारम्भ होगी।

**ब्याज**

9. स्टॉक के नामिनल मूल्य पर पिछले कूपन भुगतान की तारीख से 9.40 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज उद्भूत होगा और इसका भुगतान अर्धवार्षिक रूप से 11 सितम्बर और 11 मार्च को किया जाएगा।

**वापसी-अदायगी की तारीख**

10. सरकारी स्टॉक की वापसी-अदायगी सममूल्य पर 11 सितम्बर, 2012 को होगी।

**सरकारी स्टॉक की हस्तांतरणीयता**

11. उपरोक्त पैरा 2 में दिए गए विवरण के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी स्टॉक का बैंक, निगम अथवा किसी अन्य निकाय सहित किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अन्तरण किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इस प्रतिभूति का हस्तांतरिती भी इसका इसी तरीके से धारण और हस्तांतरण करने का पात्र होगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से  
धीरेन्द्र स्वरूप, अपर सचिव (बजट)

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economic Affairs)**  
**(BUDGET DIVISION)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2002

**Sale (re-issue) of “9.40 per cent Government Stock, 2012” to  
Reserve Bank of India on private placement basis**

F. No. 4(9)-W&M/2002.—Government of India hereby notifies sale of the “9.40 per cent Government Stock, 2012” (hereinafter referred to as ‘Government Stock’) for an aggregate amount of Rs. 6,000 crore (Nominal) as per the terms and conditions spelt out in this notification (called ‘Specific Notification’) as also the terms and conditions specified in the General Notification F. No.4(2)-W&M/97, dated 1st April, 1997 issued by Government of India as amended by Notification F. No. 4(7)-W&M/99, dated 5th April, 1999.

**Eligibility for Investment**

2. Only the Reserve Bank of India (hereinafter referred to as ‘the Bank’) shall be eligible to subscribe to the Government Stock.

**Method of Issue**

3. (i) The Government Stock will be allotted on private placement basis to the Reserve Bank of India alone.

(ii) The Government Stock will be sold through Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001.

**Issue Price**

4. The Government Stock will be issued at a price of Rs. 114.81 for Rs. 100.00 (nominal).

**Application**

5. The application should be submitted by the Reserve Bank of India at the aforesaid office on April 22, 2002.

**Date of Issue**

6. The date of issue of Government Stock will be April 22, 2002.

**Payment for the stock**

7. The payment for the stock by Reserve Bank of India on April 22, 2002 will include accrued interest on the nominal value of the stock applied for from the date of last coupon payment i.e. March 11, 2002.

**Tenure**

8. The stock will be of eleven years tenure commencing from September 11, 2001.

**Interest**

9. Interest at the rate of 9.40 per cent per annum will accrue on the nominal value of the stock from the date of last coupon payment and will be paid half yearly on September 11 and March 11.

**Date of Repayment**

10. The Government Stock will be repaid at par on September 11, 2012.

**Transferability of Government Stock**

11. Notwithstanding what is stated in Paragraph 2 hereinabove, there will be no restriction on the transfer of the Government Stock by the Reserve Bank of India in favour of any other person including banks, corporations or any other body and the transferee of such security would also be entitled to hold and transfer the same in such manner.

By Order of the President of India  
D. SWARUP, Addl. Secy. (Budget)